



28 Kalimaate Kufr (Gujarati)

28 કલિમાતે કુફર



શ્રીમંતે તરીકે. અમીરે સહુલે સુખત, બાલિયે ઘ'વતે જલગી, હાસલ જાલગા મીવાલા અબુ મિવાલ

મુહમ્મદ ઇબ્રાહિમ અત્તાર કાદિરી ર-મવી

مکتبۃ المدینہ
(સુભાષી ગુજરાતી)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताब पढने की दुआ

दीनी किताब या ईस्लामी सबक पढने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ लीजिये اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा. दुआ ये है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

तरजमा : ओ अल्लाह! हम पर ईल्मो हिकमत के दरवाजे भोल दे और हम पर अपनी रहमत नाज़िल इरमा ! ओ अ-ऊमत और बुखुर्गी वाले.

(المستطرف ج ١ ص ٤٠ دارالفکر بیروت)

(अव्वल आभिर अेक अेक बार दुइद शरीफ़ पढ लीजिये.)

तालिबे गभे मदीना
व अकीअ
व मकिरत



13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

कियामत के रोज़ हसरत

इरमाने मुसफ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ : सब से ज़ियादा हसरत कियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में ईल्म हासिल करने का मौकअ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शप्स को होगी जिस ने ईल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़्अ उठाया लेकिन ईस ने न उठाया (तاريخ دمشق لابن عساکر ج ١ ص ١٣٨ دارالفکر بیروت).

किताब के जरीदार मु-तवज्जेह हों

किताब की तबाअत में नुमायां जराबी हो या सफ़हात कम हों या बाईन्डिंग में आगे पीछे हो गअे हों तो मक-त-बतुल मदीना से रुजूअ इरमाईये.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 آمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

28 કલિમાતે કુફ

યેહ રિસાલા (28 કલિમાતે કુફ)

શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત, બાનિયે દા'વતે ઇસ્લામી હઝરત અલ્લામા મૌલાના અબૂ બિલાલ મુહમ્મદ ઇલ્યાસ અત્તાર કાદિરી ર-ઝવી ઝિયાઈ دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ ને ઉદ્દઃ ઝબાન મેં તહરીર ફરમાયા હૈ.

મજલિસે તરાજિમ (દા'વતે ઇસ્લામી) ને ઇસ રિસાલે કો ગુજરાતી રસ્મુલ ખત મેં તરતીબ દે કર પેશ કિયા હૈ ઔર મક-ત-બતુલ મદીના સે શાએઅ કરવાયા હૈ. ઇસ મેં અગર કિસી જગહ કમી બેશી પાએં તો મજલિસે તરાજિમ કો (બઝરીઅએ મક્તૂબ, ઇ-મેઇલ યા SMS) મુત્તલઅ ફરમા કર સવાબ કમાઈયે.

રાબિતા : મજલિસે તરાજિમ (દા'વતે ઇસ્લામી)

મક-ત-બતુલ મદીના

સિલેક્ટેડ હાઉસ, અલિફ કી મસ્જિદ કે સામને,
 તીન દરવાઝા, અહમદઆબાદ-1, ગુજરાત, ઇન્ડિયા

MO. 9374031409

E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

28 कलिमाते कुर्क

शैतान लाभ सुस्ती दिलाये येह रिसाला (14 सफ़ात) अक्वला
 ता आभिर पढ कर ईमान की डिफ़ाजत का सामान कीजिये.

दुर्इ शरीफ़ की इमीलत

सरकारे मदीना, राहते कल्बो सीना, साहिबे
 मुअत्तर पसीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने बा करीना
 है : ओ लोगो ! भेशक बरोजे कियामत उस की दहशतों और
 हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शप्स वोह होगा
 जिस ने तुम में से मुज पर दुन्या के अन्दर ब कसरत दुर्इ

શરીફ પઢે હોંગે. (أَفْرَدْتُسُ بِمَاثُورِ الْخَطَابِ ج ص ٢٧٧ حَدِيث ٨١٧٥)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

તંગદસ્તી, બીમારી, પરેશાની ઓર ફૌતગી કે મવાકેઅ પર બા'ઝ લોગ સદમે યા ઈશ્તિઆલ (યા'ની જઝબાતિયત) કે સબબ બસા અવકાત نَعُوذُ بِاللَّهِ کુફિયા કલિમાત બક દેતે હેં. અલ્લાહ عَزَّوَجَلَّ પર એ'તિરાઝ કરના, ઉસ કો ઝાલિમ યા ઝરૂરત મન્દ યા મોહતાજ યા આજિઝ સમઝના યા કહના યેહ સબ ખુલે કુફ હેં. યાદ રખિયે ! બિલા ઈકરાહે શર-ઈ હોશો હવાસ મેં સરીહ યા'ની ખુલા કુફ બકને વાલા ઓર મા'ના સમઝને કે બા વુજૂદ હાં મેં હાં મિલાને વાલા બલ્કે તાઈદ મેં સર હિલાને વાલા ભી કાફિર હો જાતા હૈ, ઉસ કા નિકાહ ટૂટ જાતા, બૈઅત ખત્મ હો જાતી ઓર ઝિન્દગી ભર કે નેક આ'માલ બરબાદ હો જાતે હેં, અગર હજ કર લિયા થા તો વોહ ભી ગયા, અબ બા'દે તજદીદે ઈમાન (યા'ની નએ સિરે સે મુસલ્માન હોને કે બા'દ) સાહિબે ઈસ્તિઆઅત હોને (યા'ની શરાઈત પાએ જાને) પર નએ સિરે સે હજ ફર્ઝ હોગા.

मुश्किलात के वक्त बके जाने वाले कुङ्कियात की मिसालें

«1» बतौरे अे'तिराज कलना : वोह शप्स लोगों के साथ कुङ्ग ली करे अल्लाह की तरफ से उस को कुल (FULL) आजादी है «2» बतौरे अे'तिराज यूं कलना : कली हम कुलां के साथ थोडा कुङ्ग कर लें, अल्लाह हमें झौरन पकड लेता है «3» अल्लाह ने हमेशा मेरे दुश्मनों का साथ दिया है «4» हमेशा सब कुङ्ग अल्लाह पर छोड कर ली देष लिया कुङ्ग नहीं होता «5» अल्लाह ने मेरी किस्मत अभी तक तो जरा अच्छी नहीं बनाई «6» शायद उस के बनाने में मेरे लिये कुङ्ग ली नहीं, मेरी दुन्यावी ज्वालिशात कली पूरी नहीं कुङ्ग, जिन्दगी भर मेरी कोई दुआ कबूल नहीं कुङ्ग, जिस को याहा वोह दूर यला गया, हर ज्वाब मेरा टूटा, तमाम अरमान कुयले गअे, अब आप ही बताओं मैं अल्लाह पर कैसे ईमान लाऊं ? «7» अेक शप्स ने हमारी नाक में दम कर रजा है, मजे की बात येह है के अल्लाह ली अैसों के साथ होता है «8» जिस शप्स ने मुसीबतें पड़ोयने पर कहा : अै अल्लाह ! तूने माल ले लिया, कुलां थीज ले ली,

અબ ક્યા કરેગા ? યા અબ ક્યા ચાહતા હૈ ? યા અબ ક્યા બાકી રહ ગયા ? યેહ કૌલ કુફ્ર હૈ ﴿9﴾ જો કહે : “અલ્લાહ ને મેરી બીમારી ઔર બેટે કી મશક્કત કે બા વુજૂદ અગર મુઝે અઝાબ દિયા તો ઉસ ને મુઝ પર ઝુલ્મ ક્રિયા.” યેહ કહના કુફ્ર હૈ. (૨૦૧) ﴿10﴾ અલ્લાહ ને હમેશા બુરે લોગોં કા સાથ દિયા ﴿11﴾ અલ્લાહ ને મજબૂરોં કો ઔર પરેશાન ક્રિયા હૈ.

તંગદસ્તી કે બાઘસ બકે જાને વાલે કુફ્રિયાત કી મિસાલેં

﴿12﴾ જો કહે : “ઐ અલ્લાહ ! મુઝે રિઝ્ક દે ઔર મુઝ પર તંગદસ્તી ડાલ કર ઝુલ્મ ન કર.” ઐસા કહના કુફ્ર હૈ. (૬૧૪) ﴿13﴾ બા'ઝ લોગ જો ઈઝાલએ કર્ઝ વ તંગદસ્તી યા દૌલત કી ઝિયાદતી કે લિયે કુફ્રફાર કે યહાં નોકરી કી ખાતિર યા વીઝા ફોર્મ પર યા કિસી તરહ કી રકમ વગૈરા કી બચત કે લિયે દર-ખ્વાસ્ત પર ખુદ કો ઈસાઈ (ક્રિસ્ચેન), યહૂદી, કાદિયાની યા કિસી ભી કાફિર વ મુરતદ ગુરૌહ કા “ફદ” લિખતે યા લિખવાતે હૈં ઉન પર હુકમે કુફ્ર હૈં ﴿14﴾ કિસી સે માલી મદદ કી દર-ખ્વાસ્ત કરતે હુએ કહના યા

लिपना के अगर आप ने काम न कर दिया तो मैं काटियानी या
 ठसाँ (क्रिस्चन) बन जाऊँगा. औसा कलने वाला झौरन काङ्क
 हो गया. यहाँ तक के अगर कोई कहे के मैं 100 साल के भा'द
 काङ्क हो जाऊँगा वोड अभी से काङ्क हो गया ﴿15﴾ किसी
 ने भश्वरा दिया के काङ्क हो जाओ तो वोड काङ्क बने या न
 बने भश्वरा देने वाले पर हुकमे कुङ्क है. नीऊ किसी ने कुङ्क बका
 ठस पर राजी होने वाले पर भी हुकमे कुङ्क है, क्यूँके कुङ्क को
 पसन्द करना भी कुङ्क है ﴿16﴾ अगर वाकेँ अल्लाह होता तो
 गरीबों का साथ देता, मकड़ुओं का सडारा होता.

अे'तिराळ की सूरत में बडे जाने वाले कुङ्कियात की मिसालें

﴿17﴾ मुजे नहीं मा'लूम अल्लाह ने जब मुजे दुन्या में
 कुङ्क न दिया तो मुजे पैदा ही क्यूँ किया ! येड कौल कुङ्क है.
 (مَنْعَ الرُّوضِ ص ०२१) ﴿18﴾ किसी मिसकीन ने अपनी मोहताज को
 देष कर येड कडा : या अल्लाह ! कुलां भी तेरा बन्दा है, उसे तूने
 कितनी ने'मतें दे रपी हैं और अेक मैं भी तेरा बन्दा हूँ मुजे किस

कदर रन्ज व तकलीफ़ देता है. आबिर येह क्या ईन्साफ़ है ?
 (عالمگیری ج ۲ ص ۲۱۲) ﴿19﴾ कहते हैं : अल्लाह सभ्र करने वालों
 के साथ है, मैं कहता हूँ येह सभ्र बकवास है ﴿20﴾ जिन लोगों
 को मैं प्यार करता हूँ वोह परेशानी में रहते हैं और जो मेरे
 दुश्मन होते हैं अल्लाह उन को बहुत भुशाला रभता है ﴿21﴾
 काफ़िरों और मालदारों को राहतें और गरीबों और नादारों
 पर आफ़तें ! अस ज़ अल्लाह के घर का तो सारा निजाम ही
 उलटा है ﴿22﴾ अगर किसी ने बीमारी, बे रोजगारी, गुरबत
 या किसी मुसीबत की वजह से अल्लाह पर अतिराज करते
 हुअे कहा : “अै मेरे रब ! तू मुज पर क्यूं जुल्म करता है ?
 हावांके मैं ने तो कोई गुनाह किया ही नहीं.” तो वोह काफ़िर है.

झौतगी के मौकअ पर बडे जाने वाले कुईख्यात की भिसालें

﴿23﴾ किसी की मौत हो गई ईस पर दूसरे शप्स
 ने कहा : अल्लाह को अैसा नहीं करना याहिये था. ﴿24﴾
 किसी का बेटा झौत हो गया, उस ने कहा : “अल्लाह को

ઇસ કી હાજત હોગી” યેહ કૌલ કુફર હૈ ક્યૂંકે કહને વાલે ને અલ્લાહ عَزَّوَجَلَّ કો મોહતાજ કરાર દિયા. (۳۴۹ ص ۱۷۷ عاصم بن عاصم) ﴿25﴾ કિસી કી મૌત પર આમ તૌર પર બક દેતે હૈં : અલ્લાહ કો ન જાને ઇસ કી ક્યા ઝરૂરત પડ ગઈ જો જલ્દી બુલા લિયા યા કહતે હૈં : અલ્લાહ કો ભી નેક લોગોં કી ઝરૂરત પડતી હૈ ઇસ લિયે જલ્દ ઉઠા લેતા હૈ (યેહ સુન કર મા'ના સમઝને કે બા વુજૂદ ઉમૂમન લોગ હાં મેં હાં મિલાતે યા તાઈદ મેં સર હિલાતે હૈં ઇન સબ પર ભી હુકમે કુફર હૈ) ﴿26﴾ કિસી કી મૌત પર કહા : યા અલ્લાહ ! ઇસ કે છોટે છોટે બચ્ચોં પર ભી તુઝે તર્સ ન આયા ! ﴿27﴾ જવાન મૌત પર કહા : યા અલ્લાહ ! ઇસ કી ભરી જવાની પર હી રહ્મ કિયા હોતા. અગર લેના હી થા તો ફુલાં બુદ્દે યા બુદ્દિયા કો લે લેતા ﴿28﴾ યા અલ્લાહ ! આખિર ઇસ કી ઐસી ક્યા ઝરૂરત પડ ગઈ કે અભી સે વાપસ બુલા લિયા.

તજ્દીદે ઈમાન (યા'ની નએ સિરે સે
મુસલ્માન હોને) કા તરીકા

કુફર સે તૌબા ઉસી વક્ત મક્બૂલ હોગી જબકે વોહ


ઉસ કુફ્ર કો કુફ્ર તસ્લીમ કરતા હો ઓર દિલ મેં ઉસ કુફ્ર સે નફરત વ બેઝારી ભી હો. જો કુફ્ર સરઝદ હુવા તૌબા મેં ઉસ કા તઝકિરા ભી હો. મ-સલન જિસ ને વીઝા ફોર્મ પર અપને આપ કો કિસ્ચેન લિખ દિયા વોહ ઇસ તરહ કહે : “યા અલ્લાહ
 عَزَّوَجَلَّ! મેં ને જો વીઝા ફોર્મ મેં અપને આપ કો કિસ્ચેન ઝાહિર કિયા હે ઇસ કુફ્ર સે તૌબા કરતા હૂં.” તૌબા કે બા’દ પઢિયે :
 (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ (યા’ની
 અલ્લાહ ઇઝ્જલ્ કે સિવા કોઈ ઇબાદત કે લાઈક નહીં મુહમ્મદ
 (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ઇસ તરહ મખ્સૂસ કુફ્ર સે તૌબા ભી હો ગઈ ઓર તજદીદે ઇમાન (યા’ની નઅે સિરે
 સે મુસલ્માન હોના) ભી. અગર مَعَادُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ કઈ કુફ્રિયાત બકે
 હોં ઓર યાદ ન હો કે કયા કયા બકા હે તો યૂં કહે : “યા
 અલ્લાહ ઇઝ્જલ્! મુઝ સે જો જો કુફ્રિયાત સાદિર હુએ હેં મેં ઉન
 સે તૌબા કરતા હૂં.” ફિર કલિમા પઢ લે. (અગર કલિમા શરીફ કા
 તરજમા મા’લૂમ હે તો ઝબાન સે તરજમા દોહરાને કી હાજત નહીં)
 અગર યેહ મા’લૂમ હી નહીં કે કુફ્ર બકા ભી હે યા નહીં તબ ભી


अगर ऐहतियातन तौबा करना याहें तो ँस तरह कडिये :
 “या अल्लाह عَزَّوَجَلَّ! अगर मुज से कोँ कुङ्क ढो गया ढो तो में
 उस से तौबा करता हूँ.” येह कडने के बा’द कलिमा पढ लीजिये.
 (सभी को रोजाना बढे वक्तन ङ वक्तन कुङ्क से ऐहतियाती तौबा
 करते रहना याडिये)

तज्हीदे निकाह का तरीका

तज्हीदे निकाह का मा’ना है : “नअे महर से नया
 निकाह करना.” ँस के लिये लोगों को ँकहना जरूरी
 नहीं. निकाह नाम है ँज्जब व कबूल का. ङं ब वक्ते निकाह
 बतौरे गवाह कम अज कम दो² मर्द मुसल्मान या अेक मर्द
 मुसल्मान और दो² मुसल्मान औरतों का ङजिर ढोना वाजिमी
 है. षुत्बअे निकाह शर्त नहीं बढे मुस्तहब है. षुत्बा याद न
 ढो तो اَعُوذُ بِاللّٰهِ और بِسْمِ اللّٰهِ शरीफ़ के बा’द सूरअे इतिहा
 भी पढ सकते हैं. कम अज कम दस दिरहम या’नी दो तोला
 साढे सात माशा याँदी (मौजूदा वज़न के हिसाब से 30 ग्राम 618
 मिली ग्राम याँदी) या उस की रकम महर वाजिब है. म-सलन

आप ने पाकिस्तानी 786 रुपै उधार मडूर की निय्यत कर ली है (मगर येह देष लीजिये के मडूर मुकरर करते वक्त मजकूरा यांटी की कीमत 786 पाकिस्तानी रुपै से ज़ाईद तो नहीं) तो अब मजकूरा गवालों की मौजूदगी में आप “ईज़ाब” कीजिये या’नी औरत से कहिये : “मैं ने 786 पाकिस्तानी रुपै मडूर के बदले आप से निकाह किया.” औरत कहे : “मैं ने कबूल किया.” निकाह हो गया. (तीन³ बार ईज़ाब व कबूल ज़रूरी नहीं अगर कर लें तो बेहतर है) येह भी हो सकता है के औरत ही ખुत्बा या सूअे झतिहा पढ कर “ईज़ाब” करे मर्द कह दे : “मैं ने कबूल किया,” निकाह हो गया. बा’दे निकाह अगर औरत याहे तो मडूर मुआइ भी कर सकती है. मगर मर्द बिला हाजते शर-ई औरत से मडूर मुआइ करने का सुवाल न करे.

म-दनी झूल  जिन सूअों में निकाह ખत्म हो जाता है म-सलन सरीह या’नी ખुला कुई बका और मुरतद हो गया तो तजदीदे निकाह में मडूर वाजिब है, अलबत्ता अेहतियाती तजदीदे निकाह में मडूर की हाजत नहीं.

तम्बीह  मुरतद हो जाने के बा'द तौबा व तजदीदे
 ईमान से कबूल जिस ने निकाल किया उस का निकाल हुवा ही
 नहीं.

निकाले कुमूली का तरीका

औरत को बेशक खबर तक न हो और कोई शप्स
 मर्द से मजकूर गवाहों की मौजू-दगी में औरत की तरफ से
 “ईजाब” कर ले. म-सलन कहे : मैं ने 786 रुपै उधार
 महर के बदले हुलाना बिनते हुलां बिन हुलां का तुज से
 निकाल किया, मर्द कहे : मैं ने कबूल किया येह निकाले
 कुमूली हो गया, फिर औरत को इत्तिलाअ की गई या
 दूल्हा ने खुद बताया और उस ने कबूल कर लिया, तो
 निकाल हो गया, मर्द भी “ईजाब” कर सकता है. निकाले
 कुमूली ह-नइय्यों के यहां जाईज है मगर खिलाई औला
 है. अलबत्ता शाइइय्यों, मालिकिय्यों और हम्बलिय्यों के
 यहां बातिल है.

अजाबे जहन्नम की मर्कियां

जिस से **كُلِّمَ اللَّهُ** कुई सादिर हो गया उसे यादिये के दलाईल में उलजने के बजाअे झौरन तौबा करे. **كُلِّمَ اللَّهُ** जिस का जातिमा कुई पर होगा वोह हमेशा हमेशा के लिये जहन्नम में रहेगा. याहे दुन्या में ब जाहिर वोह नेक नमाजी और तहज्जुद गुजार व परहेज गार ही क्यूं न रहा हो ! फुदा की कसम ! जहन्नम का अजाब कोई भी बरदाश्त नहीं कर सकता. कुई की मौत मरने वालों को लोहे के जैसे त्तारी गुर्जों (या'नी लथोडों) से झिरिश्ते मारेंगे के अगर कोई गुर्ज (या'नी लथोडा) जमीन पर रभ दिया जाअे तो तमाम जिन्नो ईन्स (या'नी जिन्नात व ईन्सान) जम्अ हो कर भी उस को उठा नहीं सकते. बुप्ती गिंट (या'नी अेक डिस्म के गिंट जे सब गिंटों से बडे होते हैं) की गरदन बराबर बिग्धू और अल्लाह **عَزَّوَجَلَّ** जाने किस कदर बडे बडे सांप, के अगर अेक मर्तबा काट लें तो उस की सोजिश, दई, बेयैनी यादीस⁴⁰ बरस तक रहे.

सर पर गर्भ पानी बहाया जायेगा. जलन्मिथ्यों के बदन से जो पीप बहेगी वोह पिलाई जायेगी. पारदार (या'नी कांटेदार) थूडर जाने को दिया जायेगा, वोह असा डोगा के अगर उस का अक कतरा दुन्या में आ जाये तो उस की सोजिश (या'नी जलन) व बढभू तमाम अडले दुन्या की मईशत (या'नी जिन्दगानी) बरबाद कर दे और वोह गले में जा कर इन्दा डालेगा. उस के उतारने के लिये पानी मांगेंगे तो उन को तेल की तलछट की तरह सप्त भौलता पानी दिया जायेगा के मुंह के करीब आते ही मुंह की सारी भाव गल कर उस में गिर पड़ेगी और पेट में जाते ही आंतों को टुकडे टुकडे कर देगा और वोह शोरबे की तरह बह कर कदमों की तरफ निकलेगी.

ईमान की हिफाजत का विद

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِيْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِيْ وَوَلْدِيْ وَاهْلِيْ وَمَالِيْ ۝

सुबह व शाम तीन तीन बार पढने से, दीनो ईमान, जलन, माल, बच्चे, सब महफूज रहें.

(आधी रात ढले से सूरज की पडली किरन यमकने तक सुब्द और
 ँब्तिदाअे वक्ते जोडूर ता गुडूबे आइताब शाम कडलाती है)

नोट : ँस रिसाले में आप ने मुप्तसरन 28

कुइय्यात की मिसालें मुला-डजा कीं मजीद बे शुमार कुइय्या
 कलिमात की मा'लूमात के लिये दा'वते ँस्लामी के ँशाअती
 ँदारे मक-त-अतुल मदीना की मत्बूआ 692 सईहात पर
 मुशतमिल किताब, **“कुइय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब”**
 मुला-डजा कीजिये.

येह रिसाला पठ कर दूसरे को दे दीजिये

शादी गमी की तकरीबात, ँजतिमाआत, आ'रास
 और जुवूसे मीलाद वगैरा में मक-त-अतुल मदीना के
 शाअेअ कर्दा रसाँल और म-दनी इलों पर मुशतमिल
 पेम्फ्लेट तकसीम कर के सवाब कमाँये, गाडकों को ब
 निय्यते सवाब तोडके में देने के लिये अपनी दुकानों
 पर ली रसाँल रअने का मा'मूल बनाँये, अण्बार
 इरोशों या बअ्यों के जरीअे अपने मडल्ले के घर घर
 में माडाना कम अज कम अेक अदद सुन्नतों लरा
 रिसाला या म-दनी इलों का पेम्फ्लेट पढोंया कर नेकी
 की दा'वत की धूमें मयाँये और पूब सवाब कमाँये.

तालिबे गमे मदीना व
 अक्रीअ व मकिरत व
 बे हिसाब जन्तुल
 किरदौस में आका
 का पडोस

19 रबीउन्नूर शरीक 1433
 सि.हि.
 12-2-2012

سुन्नत की जहारें

﴿مَنْ أَحْسَنَ حَالَهُ﴾ तब्दीये कुरआनी सुन्नत की आवमबीर गैर सिवासी तहरीक दा'वते ईस्लामी के मतके मतके म-दनी मातोल में अ कसरत सुन्नतों सीपी और शिपाई जानी हैं, हर जुभा'रात ईशा की नमाज के बाद आप के हाथ में खोले चावे दा'वते ईस्लामी के लफ्फादार सुन्नतों परे ईजतिमाअ में रिजामे ईशाती के खिये अरखी अरखी निष्पत्तों के साथ सारी रात गुजारने की म-दनी ईजिज है. आशिकने रसूल के म-दनी अडिकिऑ में अ निष्पते सवाल सुन्नतों की तरफिफ्त के खिये सहर और रोजाना किंके मदीना के जरीमे म-दनी ईन्बामाअत आ रितावा पुर कर के हर म-दनी मात के ईन्फिदाई हर दिन के अन्दर अन्दर अपने पक्षां के जिम्मेदार ओ जम्ब करवाने आ भा'मूल बना लीजिये, ﴿مَنْ أَحْسَنَ حَالَهُ﴾ ईस की म-र-कत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नकरत करने और ईमान की शिकाजत के खिये कुडने आ जेदुन बनेवा.

हर ईस्लामी ज्वाई अपना भेत जेदुन बनाने के "मुजे अपनी और सारी दुन्वा के खोनों की ईस्लाम की ओशिस करनी है. ﴿مَنْ أَحْسَنَ حَالَهُ﴾" अपनी ईस्लाम की ओशिस के खिये "म-दनी ईन्बामाअत" पर अमल और सारी दुन्वा के खोनों की ईस्लाम की ओशिस के खिये "म-दनी अडिकिऑ" में सहर करना है. ﴿مَنْ أَحْسَنَ حَالَهُ﴾

मड-त-मतुल मदीना की शाखें

भुरत : वसिषामाई मस्जिद, ज्वाअ हाणा दरगाह के पास. 9898815071

जमनगर : पाँच हाटडी, 9327977293

भोडसा : सुडा भजर, 9725824820

गोपीधाम : सपना नगर, मदीना मस्जिद के पास, 8141474279

धोबस : ताजघरे मदीना मस्जिद के सामने, टावर भाजर, 9374915797

मड-त-मतुल मदीना

दा'वते ईस्लामी

مکتبۃ الدینیۃ

विन्डोडे हाईस, सकि९ डी मस्जिद ठे सभने, तीन दरवाज, सडमसलदल-1 गुवरा, उन्डिस
Mo.091 93271 68200 E-mail:maktabaahmedabad@gmail.com, www.dawateislami.net